

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ (राज.)

CHITTORGARH KENDRIYA SAHKARI BANK LTD. CHITTORGARH (RAJ.)

HEAD OFFICE-CHITTORGARH-312001

PH-01472-246031,241401 (Bank) Fax.-01472-241401, Email-cksbchittor@gmail.com

क्रमांक/परि./2016-17/ 3118

दिनांक:-24.05.2016

शाखा प्रबन्धक

शाखा कार्यालय

विषय :- विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के लिये सेवा प्रभार ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अध्यक्ष महोदय के निर्णय दिनांक 24.05.2016 की अनुपालना में विभिन्न बैंकिंग सेवाओं पर वसूल योग्य प्रभार निम्नानुसार रहेगा :-

क्र.सं.	विवरण	प्रस्तावित शुल्क
1.	चालू खाता	
1.	ऐसे चालू खाते जिनमें औसत बैलेन्स रु0 3000.00 से कम जमा है अर्द्धवार्षिक	अर्द्धवार्षिक शुल्क रु0 150.00
2.	विगत तीन वर्षों जमा राशि रु0 500.00 से कम है तथा कोई लेनदेन नहीं हुआ हो	संबंधित को उचित मार्ग द्वारा एक माह की सूचना के पश्चात् आवश्यक न्यूनतम बैलेन्स जमा नहीं कराने पर जमा राशि जब्त कर ली जावे ।
3.	खाता बन्द कराने पर (12 माह से पहले) तथा बाद में	250.00 रुपये एवं 100.00 रुपये
2.	बचत खाता	
1.	बचत खाते में औसत बैलेन्स रु0 500.00 अर्द्धवार्षिक चैक बुक वाले खातों में औसत बैलेन्स रु0 1000.00 से कम होने पर अर्द्धवार्षिक	क्रमशः रु0 50.00 अर्द्ध वर्ष पर रु0 100.00 अर्द्ध वर्ष पर
2.	निष्क्रिय खातों, जिनमें तीन वर्ष से कोई लेनदेन नहीं हुआ तथा वांछित न्यूनतम बैलेन्स से कम जमा राशि है	संबंधित को उचित मार्ग द्वारा एक माह की सूचना के पश्चात् आवश्यक न्यूनतम बैलेन्स जमा नहीं कराने पर जमा राशि जब्त कर ली जावे ।
3.	खाता बंद करने पर 6 माह से पहले व बाद में	रु0 200.00 व रु0 100.00
4.	नो फिल खातों जो वित्तीय समावेश के तहत लघु खाते इन पर न्यूनतम बैलेन्स की बाध्यता नहीं होगी ।	—
3.	चैक रिटर्न दोनो ही स्तर सभी खातों पर जिन पर चैक बुक जारी की जाती है (ईसीएस समेत) - लोकल व आउट स्टेशन	रु0 100.00 रु0 150.00 +रु. 50.00 चैक को डाक द्वारा भेजने पर सर्विस चार्ज
4	अ मुफ्त चैक 10 के उपरान्त प्रति चैक वार्षिक बचत खातों व मियादी जमाओं के विरुद्ध ऋणों के लिये	रु. 3.00 प्रति चैक
ब	मुफ्त 25 चैकों के बाद प्रत्येक अतिरिक्त चैक इश्यू करने पर वार्षिक चालू खाता व नकद साख प्लेज हाइपोथिकेशन खातों के लिए	रु0 3.00 प्रति चैक
5.	अ ड्रफ्ट/चेक पासबुक जारी करवाना एवं प्रति प्रविष्टि इन्द्राज	रु0 100.00 एवं रु0 1.00 प्रति प्रविष्टि
6	अ अपरिचालित खातों को सक्रिय करना	न्यूनतम बैलेन्स की पालना करना
7	अ हस्ताक्षर / फोटो प्रमाणित करना / नामित (नोमीनेशन) परिवर्तन करने का चार्ज किसी भी प्रकार के प्रचलित खाते में	50.00 रुपये प्रत्येक
8	अ बैलेन्स सर्टिफिकेट	रु. 50.00
9	अ रेकरिंग खाता अनियमित आर डी खातों का भुगतान	बचत खातों की ब्याज दर पर
ब	अनियमित आर डी से नियमित करने पर	रु. 1.50 प्रति माह प्रति 100.00 रु. पर
10	ड्राफ्ट्स :- i) रु0 10,000.00 तक ii) रु0 10,000.00 से 100,000.00 तक iii) रु0 100,000.00 से अधिक	रु0 30.00 रु0 2.50 प्रति हजार (न्यूनतम 35.00 रु.) रु0 2.00 प्रति हजार(न्यूनतम 250.00 रु.)

11	बैंकर्स चैक:-		
	iv)	रु0 10,000.00 तक	न्यूनतम 20.00 रु.
	v)	रु0 10,000.00 से 100,000.00 तक	रु0 2.00 प्रति हजार
	vi)	रु0 100,000.00 से अधिक	रु0 1.50 प्रति हजार(न्यूनतम 200.00 रु.)
12	अ	डी0डी0/बैंकर्स चैक निरस्त करने का शुल्क	रु0 100.00
	ब.	डुप्लीकेट डी0डी0/बैंकर्स चैक/मयादि रसीद एवं किसी भी अन्य प्रकार का डुप्लीकेट विलेख जारी करना	रु0 100.00 प्रति विलेख या रसीद + क्षतिपूर्ति बंधक विलेख
	स	बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट रि-वेलिडेशन करना (समयावधि बढ़ाना)	रु0 100.00
	द	अदेय प्रमाण पत्र (राजकीय एवं केसीसी ऋण योजना के अतिरिक्त)	रु0 50.00
	4.	बाह्य चैको का संग्रहण (आई0बी0सी0/ओ0बी0सी0) ओ.बी.सी./आई.बी.सी. के संग्रहण पर निम्नानुसार दरें वसूल योग्य होंगी :-	
	i)	रु0 1.00 से 5000.00 तक	रु0 25.00
	ii)	रु0 5000.00 से 10,000.00 तक	रु0 50.00
	iii)	रु0 10,000.00 से 100,000.00 तक	रु0 100.00
	iv)	रु0 100,000.00 से 500,000.00 तक	रु0 200.00
	v)	रु0 500,000.00 से 1000,000.00 तक	रु0 225.00
	vi)	रु0 1000,000.00 से अधिक	रु0 250.00
	5.	नकद साख सीमा व्यापारिक, एसएसआई वर्किंग केपीटल एवं अचल सम्पत्ति के विरुद्ध नकद साख सीमा के नवीनीकरण पर सेवा शुल्क वसूल किया जावे जिसकी दरें निम्नानुसार होंगी :-	
	i)	रु0 1.00 लाख की सीमा तक	रु0 500.00
	ii)	रु0 1.00 लाख से अधिक एवम 5.00 लाख से कम	रु0 1000.00
	iii)	रु0 5.00 लाख से अधिक एवम 20.00 लाख से कम	रु0 2500.00
13	1.	एक वर्ष से पूर्व की चाही गयी सूचना	रु0 150.00 प्रति छः माह
	2.	डुप्लीकेट पासबुक जारी करवाना एवं प्रति प्रविष्टि इन्द्राज (सभी प्रकार के जमा एवं ऋण खातों की)	रु0 100.00 एवं रु0 1.00 प्रति प्रविष्टि
	3.	चैक भुगतान की रोक पर	रु0 100.00 प्रति विलेख (अधिकतम रु.300.00)
	4.	आकस्मिक चैक जारी करवाने हेतु प्रति चैक	रु0 10.00 प्रति चैक
	5.	खातेदार द्वारा अपने स्वयं के विनियम साध्य विलेख या जमा पर्ची की छायाप्रति लेने पर	रु0 100.00 प्रति विलेख (3 वर्ष तक)
14	3 वर्ष से अधिक पुराने पर		रु0 150.00 प्रति विलेख
	1.	अकृषि गतिविधियों की परियोजना पर प्रोसेसिंग फीस की दरें :- (अ) आवेदन शुल्क :- यह शुल्क ऋण प्रार्थना पत्र प्राप्ति के साथ लिया जावेगा जो वापस लौटाने योग्य नहीं होगा । आवेदन शुल्क की दरें निम्नानुसार होंगी :-	
	i)	रु0 1.00 लाख तक के ऋण प्रस्ताव पर	
	ii)	रु0 1.00 लाख से अधिक एवम 5.00 लाख तक	
	iii)	रु0 5.00 लाख से अधिक	
	(ब) अपफ्रन्ट फीस :- द्वितीय स्तर पर अपफ्रन्ट फीस के नाम से शुल्क वसूल किया जावेगा, जो ऋण स्वीकृत हो जाने पर ही लिया जावेगा । इसकी दरें निम्नानुसार होंगी :-		
	i)	रु0 10,00,000.00 तक	स्वीकृत राशि का 1 प्रतिशत
15	ii)	रु0 10,00,000.00 से रु0 20,00,000.00 तक	न्यूनतम रु 10,000.00 एवं अतिरिक्त एक हजार पर 0.75 प्रतिशत की दर से
	iii)	रु0 20,00,000.00 से अधिक	न्यूनतम रु 17,500.00 एवं अतिरिक्त एक हजार पर 0.50 प्रतिशत की दर से
	1.	बैंक गारन्टी (बैंक की सावधि जमा के विरुद्ध)	एक प्रतिशत वार्षिक एवं प्रतिवर्ष 0.30 प्रतिशत वृद्धि (संबंधित से एनओसी प्राप्त होने के एक माह पश्चात् मियादी रसीद का भुगतान होगा ।
		अन्य शुल्क अधिकतम सीमा रोकड़ निकालने की अन्य शाखाओं से (SB/OD/CD/CC) (Maximum limit of cash withdrawal from other branches)	रु. 25000.00 दैनिक आधार पर
16	1.	स्टेण्डिंग चोर्जज शुल्क	रु. 50.00 + Applicable Remittance Charge
17	1	लॉकर किराया लीज वार्षिक -	नगरपालिका क्षेत्र में
	1.	छोटे लॉकर	रु. 800.00
	2.	मध्यम लॉकर	रु. 1200.00

		3. बड़े लॉकर	रु. 3000.00	रु. 2800.00
		4. बैंक स्टाफ से (छोटे लॉकर)	रु. 250.00	रु. 250.00
		बैंक के पत्रांक परि./2015-16/2920 दिनांक 28.03.16 के अनुसार		
18	1.	आरटीजीएस एवं एनईएफटी चार्ज -	एनईएफटी	आरटीजीएस
		राशि - 10000.00 तक -	रु. 5.00	-
		राशि - 10,001.00 से 50,000.00 तक -	रु. 10.00	-
		राशि - 50,001.00 से 2,00,000 तक -	रु. 20.00	-
		राशि - 2,00,001.00 से 10,00,000 तक -	रु. 25.00	रु. 25.00
		राशि - 10,00,001 से 50,00,000 तक	रु. 25.00	रु. 40.00
		राशि - 50,00,000 से अधिक	रु. 25.00	रु. 50.00
19	1.	एसएमएस अलर्ट -	रु. 15.00 प्रति त्रैमास	
20	1.	आईबीटी चार्ज -		
		रु. 1,00,000.00 तक	निशुल्क एक बैंक अतिरिक्त होने पर रु. 25.00 प्रति इन्सट्रुमेंट	
		रु. 1,00,000.00 से अधिक एवं रु. 5,00,000.00 लाख तक	रु. 25.00 प्रति इन्सट्रुमेंट	
		रु. 5,00,000.00 से अधिक	रु. 50.00 प्रति इन्सट्रुमेंट	
21		रुपे कार्ड (एटीएम) के उपयोग के सन्दर्भ में शीर्ष बैंक से कार्ड प्राप्त करते समय उन पर उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार प्रभार पर सहमति रही है। जो निम्नांकित है -		
		6. Enrollment Fee	रु. 125.00	
		7. Annual Fee	रु. 125.00	
		8. Additional Card	रु. 125.00	
		9. PIN Replacement Fee	रु. 50.00	
		10. Card Replacement Fee	रु. 125.00	
22		रुपे कार्ड (एटीएम) ट्रांजेक्शन के सन्दर्भ में शीर्ष बैंक से कार्ड प्राप्त करते समय उन पर उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार प्रभार पर सहमति रही है। जो निम्नांकित है -		
		Transactions		
		OWN ATM		
		Free (Financial/non financial) transaction per month in metro cities and metro cities	Five	Five
		Charge from 6 th Transaction	Rs. 17/-	Rs. 9/-
		Other Banks's ATM		
		Free (Financial/non financial) transaction per month in metro cities and metro cities	Five	Five
		Charge from 6 th Transaction	Rs. 17/-	Rs. 9/-
		Daily Usage Limits		
		Cash Withdrawal(Three Transaction Per Day)	Rs. 40,000/-	
		Purchase Transaction Limit at Merchant Establishment	Rs. 40,000/-	

नोट -

- सभी चार्ज में सेवा शुल्क केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त रहेगा।
- सहकारी संस्थाओं द्वारा इफको/कृमको के पक्ष में क्रय किये ड्राफ्ट पर निर्धारित शुल्क से आधा शुल्क वसूल किया जावे।
- बैंक के पत्रांक परि./2014-15/1155 दिनांक 24.12.2014 में वर्णित स्टाफ सदस्य के रूप में परिभाषित बैंक स्टाफ को उनके निजी उपयोग हेतु व्यवसाय हितों के अतिरिक्त उपरोक्त वसूल योग्य प्रभार से छूट होगी (लॉकर किराये एवं रुपे कार्ड (एटीएम) के अतिरिक्त)।
- सभी प्रकार के प्रभारों के साथ किसी भी प्रकार के राजकीय प्रभार जो राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार को भुगतान योग्य है एवं डाक खर्च अतिरिक्त वसूल किया जावेगा।
- सभी प्रकार के जमा खातों के खातेदार की मृत्यु पर या शारिरिक रूप से असक्षम होने पर खाते की बकाया राशि का अंतरण चार्ज व खाता बन्द करने के चार्ज से छूट होगी।
- सभी प्रकार की जमा राशि के भुगतान के विरुद्ध व ऋणों के भुगतान के विरुद्ध बैंकर्स चैक जारी करने पर वसूल योग्य प्रभार से छूट होगी।
- भूमि विकास बैंक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता भण्डार द्वारा खाते में पर्याप्त फण्ड होने पर/नियमित लेनदेन करने पर एवं पैक्स एवं लेम्पस को खाते के अंतरण पर वसूल योग्य प्रभार से छूट होगी।
- बैंक के हित में नये प्रभार व उपयुक्त प्रभार के संबंध में कोई सुझाव हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।
- उपरोक्त लिखित दरें नये एवं पुराने खातों पर दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी होंगी एवं इसको शाखा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
- उपरोक्त प्रभार एवं दरें उच्च वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी निर्देशों एवं बैंक द्वारा समय-समय पर समीक्षा उपरांत परिवर्तनशील।

क्रमांक/परि./2016-17/ 3118

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, बैंक।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, बैंक।
3. प्रबंधक बैंक।
4. सीबीएस नोडल अधिकारी को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि संशोधित प्रभार/सर्विस चार्ज को लागू करने हेतु सोफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करावे।

प्रबंध निदेशक
दिनांक:-24.05.2016

प्रबंध निदेशक

चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ (राज.)

CHITTORGARH KENDRIYA SAHKARI BANK LTD. CHITTORGARH (RAJ.)

HEAD OFFICE-CHITTORGARH-312001

PH-01472-246031,241401 (Bank) Fax.-01472-241401, Email-cksbchittor@gmail.com

क्रमांक/परि./2016-17/3382

दिनांक:-06.07.2016

शाखा प्रबन्धक

शाखा कार्यालय

विषय :- विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के लिये सेवा प्रभार ।

प्रसंग :- बैंक के पत्रांक परि/2016-17/3118 दिनांक 24.05.2016 के क्रम में ।

उपरोक्त प्रसंगानुसार अध्यक्षीय निर्णय दिनांक 06.07.2016 के अनुसार विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के लिये सेवा प्रभार में बैंक सॉफ्टवेयर में उपलब्ध विकल्प के अनुसार निम्नानुसार संशोधन किया जाता है जो दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी होगा :-

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
ऐसे चालू खाते जिनमें औसत बैलेंस रु0 3000.00 से कम जमा है अर्द्धवार्षिक - अर्द्धवार्षिक शुल्क रु0 150.00	ऐसे चालू खाते जिनमें औसत बैलेंस रु0 3000.00 से कम जमा है त्रैमासिक - त्रैमासिक शुल्क रु0 150.00
बचत खाते में औसत बैलेंस रु0 500.00 अर्द्धवार्षिक - रु. 50.00 अर्द्ध वर्ष पर	बचत खाते में औसत बैलेंस रु0 500.00 त्रैमासिक - रु. 50.00 प्रति त्रैमास पर
चैक बुक वाले खातों में औसत बैलेंस रु0 1000.00 से कम होने पर अर्द्धवार्षिक - रु0 100.00 अर्द्ध वर्ष पर	चैक बुक वाले खातों में औसत बैलेंस रु0 1000.00 से कम होने पर त्रैमासिक - रु0 100.00 प्रति त्रैमास पर
चालू खाता बन्द कराने पर (12 माह से पहले) तथा बाद में - 250.00 रुपये एवं 100.00 रुपये	खाता बन्द कराने पर - रु. 200.00
बचत खाता बंद करने पर 6 माह से पहले व बाद में - रु0 200. 00 व रु0 100.00	खाता बन्द कराने पर - रु. 200.00

प्रोसेसिंग शुल्क में राजकीय प्रायोजित कार्यक्रमों यथा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, पोप इत्यादि एवं स्वरोजगार ऋण रु. 2.00 लाख तक मुक्त रहेंगे ।

क्रमांक/परि./2016-17/3382

दिनांक:-06.07.2016

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, बैंक ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, बैंक ।
3. श्री अधिशाषी अधिकारी/श्री अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी, बैंक ।
4. प्रबंधक, बैंक ।
5. सीबीएस नोडल अधिकारी को भेजकर निर्देश दिये जाते हैं कि संशोधित प्रभार/सर्विस चार्ज को लागू करने हेतु सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करावें ।

प्रबंध निदेशक



चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, चित्तौड़गढ़ (राज.)

HEAD OFFICE

Sahakar Circle, Near Subhas Chok, Chittorgarh
PH-01472-246031, 241401 Fax.-01472-241401

परिचालन अनुभाग

Email-cksbmo@gmail.com
Email - cksbchittor@gmail.com

क्रमांक / परिचालन / 2022-23 / 160

दिनांक: 03/08/2022

शाखा प्रबंधक
शाखा कार्यालय
.....।

विषय:-RTGS/NEFT सेवाओं के लिये सेवा प्रभार में संशोधन बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संचालक मण्डल की सम्पन्न बैठक दिनांक 27.07.2022 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 07 के उपभाग संख्या 04 में लिये गये निर्णय अनुसार RTGS/NEFT सेवाओं के लिये संशोधन करते हुए बैंक सॉफ्टवेयर में उपलब्ध विकल्प में निम्नानुसार किया जाता है -

Description	NEFT Charges	RTGS Charges
Up to 10000.00	2.50 + GST	-
Above 10000.00 upto 100000.00	5.00 + GST	-
Above 100000.00 upto 200000.00	15.00 + GST	-
Above 200000.00 upto 500000.00	25.00 + GST	24.50 + GST
Above 500000.00	25.00 + GST	49.50 + GST

उपरोक्त की पालना सुनिश्चित करें।

क्रमांक / परिचालन / 2022-23 / 160

प्रतिलिपि:-

1. निजी सहायक, अध्यक्ष महोदय, बैंक।
2. मुख्य प्रबंधक, बैंक।
3. अनुभाग प्रभारी, प्रधान कार्यालय, बैंक।

(नानालाल चावला)
प्रबंध निदेशक

दिनांक: 03/08/2022

(नानालाल चावला)
प्रबंध निदेशक